

रामाज्ञा स्कूल नोएडा



v / सिल्वर ज़ोन (2018-19)

हिंदी ओलंपियाड अभ्यास -पत्र -4

सही विकल्प चुनिए -

प्रश्न 1 .वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है ?

- | | |
|-----------|--------------|
| (क) शब्द | (ख) वाक्य |
| (ग) अक्षर | (घ) वर्णमाला |

प्रश्न 2 स्वरों का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है ?

- | | |
|------------|------------|
| (क) मात्रा | (ख) वर्ण |
| (ग) अक्षर | (ग) विसर्ग |

प्रश्न 3 . दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द है -

- | | |
|----------|----------|
| (क) वाना | (ख) वाय |
| (ग) चाय | (घ) वानी |

प्रश्न 4 अध्यापिका पढ़ा रही है , इस वाक्य में अध्यापिका का संज्ञा -भेद है -

- | | |
|-----------------|--------------|
| (क) व्यक्तिवाचक | (ख) भाववाचक |
| (ग) जातिवाचक | (घ) समूहवाचक |

प्रश्न 5 . सचिन ने छक्का मारा ,इस वाक्य में सचिन का संज्ञा -भेद है -

- | | |
|-----------------|----------------|
| (क) जातिवाचक | (ख) भाववाचक |
| (ग) व्यक्तिवाचक | (घ) द्रव्यवाचक |

प्रश्न 6 वीर शब्द का भाववाचक होगा -

- | | |
|------------|-----------|
| (क) वीरों | (ख) वीरता |
| (ग) वीरताई | (घ) वीरा |

प्रश्न 7 .हमें भलाई का कम करना चाहिए ,इस वाक्य में भलाई शब्द का संज्ञा -भेद है -

- | | |
|-----------------|--------------|
| (क) व्यक्तिवाचक | (ख) जातिवाचक |
| (ग) भाववाचक | (घ) समूहवाचक |

प्रश्न 8. उस सभा में अनेक _____ थीं ।

- | | |
|-------------|-------------|
| (क) महिला | (ख) महिलाओं |
| (ग) महिलागण | (घ) महिलाएँ |

प्रश्न 9 .बंदरों ने सारी _____ फेंक दीं ।

(क) टोपियाँ

(ख) टोपियों

(ग) टोपिएँ

(घ) टोपी

प्रश्न 10 .शुद्ध वाक्य चुनिए ।

(क) रानी का प्राण निकल गए

(ख) रानी के प्राण निकल गए

(ग) रानी का प्राण निकल गया

(घ) रानी को प्राण निकल गया

प्रश्न 11. 'यश ' का विलोम है -

(क) अपयश

(ख) निर्यश

(ग) अयश

(घ) उपयश

प्रश्न 12 .'आग ' का पर्यायवाची है -

(क) ज्वाला

(ख) अनिल

(ग) नीर

(घ) पीयूष

प्रश्न 13 .जल में रहने वाला कहलाता है -

(क) नभचर

(ख) थलचर

(ग) जलचर

(घ) अचल

प्रश्न 14 .'भीगी बिल्ली बनना' मुहावरे का अर्थ है -'

(क) डरकर भाग जाना

(ख) बिल्ली का भीग जाना

(ग) बहुत डर जाना

(घ) भाग जाना

प्रश्न 15 . शुद्ध शब्द चुनिए-

(क) प्रश्न

(ख) प्रश्न

(ग) प्रसन

(घ) परसन

प्रश्न 16 .निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है , वह कुछ नहीं कर सकता । सतत परिश्रम ही हमें आगे ले जा सकता है , सुस्ती पीछे ढकेलती जाती है । संसार के बड़े-बड़े कार्य करने वाले कुछ ही समय में इतना काम कर लेते हैं , जितना साधारण लोग सप्ताहों और महीनों में नहीं कर पाते । सच्चा परिश्रम ही प्रकृति का नियम है । जो इस नियम का पालन नहीं करेगा , वह कष्ट पाएगा। आदमी की परख बड़ी-बड़ी बातों से उतनी नहीं होती , जितनी छोटी-छोटी बातों से । सच्चे मन से परिश्रम करने वाला इंसान हमेशा ऊँचाइयों पर रहता है ।

प्रश्न 1. कौन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता?

(क) जो व्यक्ति आलस नहीं करता है ।

(ग) मेहनती व्यक्ति ।

(ख) जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता ।

(घ) सतत परिश्रम करने वाला व्यक्ति ।

प्रश्न 2 हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ?

(क) आलस करके ।

(ग) सतत परिश्रम करके ।

(ख) सुस्ती करके ।

(घ) साधारण कार्य करके ।

प्रश्न 3 प्रकृति का नियम क्या है ?

(क) सच्चा परिश्रम ।

(ग) सुस्ती ।

(ख) आलस ।

(घ) लगन ।

प्रश्न 4 कैसा व्यक्ति हमेशा ऊँचाइयों पर रहता है ?

(क) बड़ी-बड़ी बातें करने वाला

(ग) परिश्रम करने वाला ।

(ख) छोटी-छोटी बातें करने वाला ।

(घ) आलस करने वाला ।

प्रश्न 5 इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए ?

(क) परिश्रम की महत्ता

(ग) कार्य का महत्व

(ख) आलस का महत्व

(घ) प्रकृति का महत्व